



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 386 राँची, शुक्रवार

15 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

5 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

vknsk

3 जून 2015

संख्या: 03नि०-97/2011 रा०नि०आ० 1408 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 1951 तथा तद्वधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के

पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों एवं स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता जाता है।

Øekd	ftyk	fuokpu {k-	uke ,oairk	dkj.k
1	2	3	4	5
1	tkerkMk	XIII tkerkMk@ukjk; .ki j&01	i pe ukjk; .k fl g] fi rk&dk: fl g]xte&cykV/M] i pk; r&ukokMhg 4] i z[kM&ukjk; .ki j] ftyk&tkerkM	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djus ea vl Qy jgA
2		XIII tkerkMk@djekV/M+ fo kl lxj&05	'kqOnk [kkru] xte&uokMhg] i k&uokMhg] i z[kM&djekV/M] ftyk&tkerkMk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djus ea vl Qy jgA
3		XIII tkerkMk@Orgij&08	gkdhe ep] xte&exkzcu] i @&Mefj; k] i z[kM&Orgij] ftyk&tkerkMk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djus ea vl Qy jgA
4		XIII tkerkMk@Orgij&09	T; ksh eMy] xte&[k]cu] i @&fl eykMxky] i z[k.M&Orgij] ftyk&tkerkMk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djus ea vl Qy jgA
5		XIII tkerkMk@Orgij&09	uferk l jdkj] xte\$i @&Orgij] i z[kM&Orgij] ftyk&tkerkMk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djus ea vl Qy jgA

6	XIII tkerkMk@Qrgij&09	I qhrk n0h] HkkrqMhg] i 0&vkl ucSM+ k] i [kM&Qrgij] ftyk&tkerkMk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djus ea vl Qy jgA
7	XIII tkerkMk@ukyk&10	irh od jk mQZfl irh VMW xte&l kydqMk] i k0&xSM+ k] i 0&[k]k] i [k.M&ukyk] ftyk&tkerkMk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djus ea vl Qy jgA
8	XIII tkerkMk@ukyk&10	feru xkjkb] xte&fi iyk] i k0&ekgukckd] i 0&cUnjMhgk] i [k.M&ukyk] ftyk&tkerkMk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djus ea vl Qy jgA
9	XIII tkerkMk@ukyk&10	I Qkyh ep] xte&tojnkgk] i k.V&xSM+ k] i [k.M&ukyk] ftyk&tkerkMk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djus ea vl Qy jgA
10	XIII tkerkMk@dqMfgr&12	I kuyh ck/; dj] xte&pMekckj] i 0&Hkyqk] ftyk&tkerkMk	fuokpu 0; ; ka dh ys[kk nkf[ky djus ea vl Qy jgA

jKT; fuokpu vk; 0r ds vkns k I }

(g0@&) अस्पष्ट

I fpo

jKT; fuokpu vk; kx]

>kj [k.M] jkph A

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 386--50 ।